



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 278 राँची, गुरुवार

10 वैशाख, 1937 (श०)

30 अप्रैल, 2015 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

-----

अधिसूचना

29 अप्रैल, 2015

संख्या-खनि(विविध)-176/2012 (V)-802 /एम०,-- राँची, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67, ऑफ 1957) की धारा-15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम-29(1), 29(5) एवं 30 के अन्तर्गत क्रमशः अनुसूची-1, अनुसूची-2 एवं अनुसूची-3 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो इस अधिसूचना के पत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा :-

1. इस नियमावली में वर्तमान अनुसूची-1, 2 एवं 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,

संशोधन

(अनुसूची-1)

**लघु खनिज के नियत लगान की दर**

(29(1) 'क' दृष्टव्य)

क्र सं	राज्य	अवधि	नियत लगान की पूर्व दर (रूपये में)	नियत लगान का पुनरीक्षित दर (रूपये में)
1	2	3	4	5
1	झारखण्ड	पट्टा की सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रति वर्ष की दर (2004 से लागू)	9000.00 रूपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष	25000.00

संशोधन

(अनुसूची -2)

लघु खनिज के प्रस्तावित स्वामिस्व की दर की विवरणी।

(29(1) 'ख' दृष्टव्य)

क्र० सं०	खनिज का नाम	दिनांक- 27.12.2010 से झारखण्ड राज्य में लागू दर (प्रतिघन मीटर)	पुनरीक्षित स्वामिस्व की दर
1	2	3	4
1	Boulder, Gravel, Shingle	63.00	105.00
2	Boulder, Gravel, Shingle which is used for making chips	63.0	105.00
3	Ordinary sand used for construction purpose	32.00	40.00
4	Brick earth (equivalent to 400 standard bricks)	24.00	30.00

5	Ordinary Clay - Clay used for manufacturing of Raniganj tiles and commercial use	24.00	30.00
6	Lime shale, Kankar and limestone used in kilns for manufacturing of lime used as building material and lime shell used for manufacture of bottoms.	53.00	70.00
7	Morum	24.00	30.00
8	Chalcedony pebbles used for ball mill purposes only.	50.00	65.00
9	Quartzite and sandstone when used for purposes of building or for making road metal and household utensils.	60.00	75.00
10	Reh Matti	18.00	25.00
11	Saltpetre	20.00	25.00
12	Slate and Shale when used for building material	50.00	65.00
13	Fullers earth	80.00	100.00
14	Stone used for making household utensils including grinding stone	25.00	35.00
15	Stone sets and stone bricks (per hundred)	50.00	65.00
16	Stone dust	10% of sale price	12% of sale price
17	Granite (In case of use for decorating stone)		
	a. Block more than 60 c.m	700.00	875.00
	b. Block less than 60 c.m	350.00	440.00
18	Marble :		
	(a) Block less than 60 c.m	410.00	515.00
	(b) Block more than 60 c.m	530.00	665.00
	(c) Boulder and Chips	235.00	295.00
	(d) Dust	175.00	220.00
19	All other minor minerals not here in before specified.	10% of sale price on ad-volorem basis	12% of sale price on ad-volorem basis

## संशोधन

## अनुसूची-3

## तालिका "ख"

SL.	Categories of area	Areas included in categories as shown in column (2)	Fixed No. of bricks (equivalent bricks earth perkin situated in area shown in column (3))	Previous rate	Revised Rate
1	2	3	4	5	6
1	I	Bricks manufactured by mechanized kiln setup	20 Lakh	Rs. 1,20,000.00	Rs. 1,50,000.00
2	II	Urban areas of Jamshedpur, Ranchi, Dhanbad, Bokaro	10 Lakh	Rs. 60,000.00	Rs. 75,000.00
3	III	Other Urban area	8 Lakh	Rs. 47,000.00	Rs. 60,000.00
4	IV	Rural area	6 Lakh	Rs. 35,000.00	Rs. 45,000.00
5	V	Bengla Bhatta for Commercial use	1 Lakh		
6	VI	For additional one lakh bricks		Rs. 6,000.00	Rs. 7,500.00

2. यह संशोधन इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,  
आनन्द मोहन ठाकुर,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

-----